


Balance of Payments A/c

भुगतान सन्तुलन खाता



चापार
Trade A/C
या

Current
A/C
चालू खाता

Capital
A/C
पूंजी खाता

Official
Reserve
कार्य
खाता

Visible
A/C
दृश्य
खाता

वस्तु सेवा
और एकतरफा स्थानान्तरण

Unilateral transfer
Bilateral

IMPEX

Current
A/C

— पतन
खाता

Trade A/C
or
Visible A/C
खापार / दृश्य खाता

→ वस्तु
खापार

✓ Invisible A/C
अदृश्य खाता


सेवा
खापार

पुनः निरफा
स्थानान्तरण

Trade A/c

WT

Visible A/c



Balance on

Trade A/c

Invisible

A/c



Balance on

Invisible A/c

Capital A/c

↓
Asset / Lia.

↓
FDI
FPI
ECB

Official Reserve
A/c

↓
IMF

NRI Deposits

External Assist.

FCA
Gold
SDR
RTP



अर्थ (Meaning)

किसी विदेशी मुद्रा की एक इकाई का घरेलू मुद्रा में अभिव्यक्त मूल्य, जैसे कि ₹ 82 = \$ 1 अर्थ।

उपर्युक्त से आधार पर घरेलू मुद्रा की विदेशी मुद्रा में भी विनिमय दर निकाली जा सकती है जैसे कि -

$$₹ 1 = \$ \left(\frac{1}{82} \right)$$

expressed in domestic currency

like ₹ 82 = \$ 1 & so on.

From the above, we can also get the exchange rate of the domestic currency in terms of a foreign currency like -

$$₹ 1 = \$ \left(\frac{1}{82} \right)$$

પ્રકાર (Types)

ઠિકર

Fixed

લચીલી

Flexible / Floating


स्थिर विनिमय दर (Fixed Ex. Rate)

इसके अन्तर्गत किसी विदेशी मुद्रा की विनिमय दर में एक निश्चित स्तर पर केन्द्रीय बैंक द्वारा निर्धारित दर दिया जाता है और उसमें बार - २ बदलाव नहीं किया जाता है।

अवमूल्यन
Devaluation } →

स्थिर विनिमय दर में मंडीप
बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा से सन्तुर्भ
में घरेलू मुद्रा से मूल्य को कम
करना ।

controlling the value of
foreign currency by the central
bank under fixed ex. rate regime.



Import Substitution

आयात प्रतिस्थापन

भारत

$$MRP = ₹ 50$$

Ex. Rate

(i) $₹ 50 = \$ 1$

(ii) $₹ 100 = \$ 1$

USA

$\rightarrow \$ 1 \times 10 = \$ 10$

$\rightarrow \$ 0.5 \times 50 = \$ 25$

Possible Impacts of Devaluation

આમૂલ્યન કે સંમૂલ્યન પ્રભાવ



$$C + I + G + \textcircled{X} - \textcircled{M}$$

↑
↓

Variables - <u>पर</u>		Impact
(i)	Exports	(+)
(ii)	Imports	(-)
(iii)	BoT	(+)
(iv)	GDP	(+)
(v)	Emp.	(+)
(vi)	Inflation	(+)

आदिभूतपन के प्रभाव आवभूतपन
के प्रभावों - सि तुलना में ठीक विपरीत
होते हैं ।

Just opposite of the
process of devaluation.

Under it, the value of
domestic currency in terms of
foreign currency is increased by
the central bank.

The impacts of revaluation
are just opposite of the impacts
of devaluation.

Depreciation

Devaluation

आमूल्यन

Revaluation

आदिमूल्यन

Appre.

Not Automatic नहीं

✓ Central Bank करता है

अधिमूल्यन

Revaluation



अवमूल्यन में ठीक विपरीत

प्रक्रिया ।

इसमें घरेलू मुद्रा को
विदेशी मुद्राओं में मानक में मूल्य
बढ़ा दिया जाता है ।

Under it, the central bank determines the exchange rate of a foreign currency at a particular level & does not change it frequently.

$$\text{₹ } 50 = \$ 1$$

↑
Central Bank

NR (₹)
↓
Indian
↓
Non-Resident
અનિવાસી

Private
Remittance
નિજી સંપ્રેષણ
↓
\$
↓
અંકનીય